



भा.कृ.अनु.प. - राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो

ICAR - NATIONAL BUREAU OF AGRICULTURALLY IMPORTANT MICROORGANISMS

ग्राम व पोस्ट: कुसमौर, मऊ नाथ भंजन, मऊ (उ.प्र.)-275101

Vill & Post: Kusmaur, Mau Nath Bhanjan, Mau (UP)- 275101

Tel (दूरभाष): (0547) 2530080, FAX (फैक्स): (0547) 2530381,

E-Mail: ao.nbaim@icar.gov.in, (Web): www.nbaim.org.in, www.mgrportal.org.in



पत्रांक: 4-13/ Rctt. of RA/SRF/ YP-I-II /NBAIM/2018 / 431

दिनांक: 03.07.2018

(1) रिसर्च फ़ैलो , यंग प्रोफेशनल- II एवं यंग प्रोफेशनल- I के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 22.06.2018 को सम्पन्न हुए साक्षात्कार का घोषित परिणाम इस प्रकार है-

Result for Walk in Interview held on 22/06/2018

	<u>Project</u>	<u>Post</u>	<u>Selected</u>	<u>Wait listed</u>
1a	Microbial Genetic Resource Repository under "Application of Microorganisms in Agriculture and Allied Sectors" (AMAAS).	SRF	Mr. Akhileendra Pratap Bharati (SRF)	1. Mr. Bansh Narayan Singh 2. Mr. Mohammad Danish
1b		YP-II	Mr. Ankit Srivastava (YP-II)	1. Ms. Sunita Kumari
2.	Development of method for detection of Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonium (DNRA) process in bacteria from different agro- ecosystems	YP-II	Ms. Rakhi Dhyani (YP-II)	1. Mr. Ankit Srivastava
3.	DNA fingerprinting, and Molecular Identity verification to the companies	YP-I	Ms. Kirti Srivastava (YP-I)	1. Mr. Vimlesh Kumar 2. Mohammad Danish
4.	Development of research modules and pipelines for commercialization and regulatory requirements concerning bio-pesticides	SRF	Ms. Deepti Malviya (SRF)	NIL
5.	National Agriculturally Important Microbial Culture Collection (NAIMCC)	YP-II	Ms. Madhu Yadav (YP-II)	1. Mr. Arun P. Singh 2. Ms. Katyani Pandey
6.	E.R.P. Management System of ICAR	YP-I	Mr. Arjun Lal Gupta (YP-I)	1. Mr. Abhishek Kumar Gupta 2. Mr. Shailendra Kumar Singh
7.	<i>In vitro</i> culturing of <i>Pasteuria penetrans</i>	SRF	Mr. Bansh Narayan Singh (SRF)	1. Mohammad Danish 2. Ms. Kankshi Sahu
8.	Coordination and HRD	YP-II	Mr. Mahendra Vikram Singh Rajawat (YP-II)	1. Mr. Bansh Narayan Singh 2. Ms. Nusrat Jahan

